#### नेमार को स्टॉपेज टाइम में लालकार्ड मिला , मार्शेले ने पीएसजी को हराया

पेरिस। नेमार समेत पांच खिलाड़ियो को स्टॉपेज टाइम में लालकार्ड दिखाया गया जिससे पेरिस सेट जर्मेन फुटबॉल क्लब को तनावपूर्ण मुक्तबले में मार्शेले ने मात दी। पीएसजी स्टार नेमार को सीधे लालकार्ड मिला जो सेटर हाफ अलवारो गोजालेस से भिड गए थे।मार्शेले ने यह मैच १-० से जीता। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार ने बाद मे अधिकारियों से कहा कि उन पर नस्लवादी टिप्पणी की गई थी।

शुभंकर शर्मा पुर्तगाल मारटर्स में 44वें रथान पर विलामोरा। भारतीय गोल्फर शुमंकर शर्मा पुर्तगाल मास्टर्स के आखिरी दौर में इवन पार ७१ का स्कोर करके संयुक्त ४४वे स्थान पर रहे। अपने पेशेवर कैरियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे शर्मा ने चार बर्डी लगाई और चार बोगी किए। दक्षिण अफ्रीका के नॉर्ज कोटजी ने चार दिन में तीसरी बार 66 क स्कोर करके खिताब जीता। यह उनका पांचवां यूरोपीय टूर खिताब है।

#### लाहिड़ी का डेढ़ साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन , संयुक्त 36वें स्थान पर

नापा (कैलिप्नेर्निया)। अनिर्बान लाहिड़ी ने सेफवे ओपन गोल्फ में दो अंडर ७० का स्कोर करके संयुक्त ३६वां स्थान हासिल किया जो करीब १८ महीने में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आखिरी सात होल में चार बर्डी लगाने वाले लाहिड़ी का कुल स्कोर १२ अंडर रहा। वही 47 वर्ष के स्टीवर्ट सिंक ने पीजीए टूर पर 2009 के बाद पहला खिताब जीता। पीजीए ट्र पर पिछली २५ शुरुआत मे लाहिडी का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वह यहां २०१८ और २०१९ में कट में प्रवेश से चूक गए थे।

#### रेसिंग : भारत के रविंद्र का फ्रांस में मिश्रित प्रदर्शन

बेगलुरु। एस्टन मार्टिन्स इाइवर्स अकादमी में इस वर्ष जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय अखिल रविद्र चैपियोनैट डि फ्रांस एफएफएसए जीटी की पहली रेस में जी वानेलेट के साथ चौथे स्थान पर रहे। एस्टन मार्टिन वांटेज एएमआर चला रहे रविद्र प्रो-एम वर्ग की पहली रेस में चौथे स्थान पर रहे लेकिन दूसरी रेस में उन्हें तकनीवी खराबी से जूझना पड़ा।

#### खेल मंत्री रीजीजू ने लद्दाख में विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला रखी

लेह (लद्दाख)। खेल मंत्री किरेन रीजीजु ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख मे विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला रखी निसमे सिंथेटिक ट्रैक और फ़ुटबॉल क एस्ट्रोटर्फ भी शामिल है। उप राज्यपाल आरके माथुर की मौजदगी मे आधारशिला रखी गई। लेह के लेहात ओपन स्टेडियम में बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक और फ़ुटबॉल के एस्ट्रोटर्फ के निर्माण पर लगभग १० करोड़ का खर्चा आएगा। इसके जनवरी २०२१ तक पूरा होने की उम्मीद है। एनडीएस इंडोर स्टेडियम मे जिम्नेजियन हॉल केनिर्माण की योजना बनाई गई है और इसक निर्माण मार्च २०२१ में पूरा होगा।

# थीम ने जीता अमेरिकी ओपन

## 🗕 दो सेट गंवाकर अमेरिकी ओपन खिताब जीतने वाले ७१ साल में पहले खिलाड़ी बने

## •ज्वेरेव को हराकर पहला ग्रैंडस्लैम खिताब हासिल किया

भाषा। न्यूयॉर्क

आस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने दो सेट गंवाने के बाद पांचवें सेटमें अभतपर्व टाइब्रेकर में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अमेरिकी ओपन पुरूष एकल खिताब जीत लिया और दो सेट गंवाकर वापसी करने वाले वह 71 साल में पहले खिलाडी बन गए। दर्शकों के बिना आर्थर एशे स्टेडियम में हार की कगार पर पहुंचे थीम ने 2-



दर्ज की। यह उनका पहला ग्रैंडस्लैम खिताब है। जीत के बाद उन्होंने कहा , आज शरीर पर विश्वास जीत गया। मैं बहुत खुश हूं। तीसरे चैम्पियनशिप अंक पर बैकहैंड पर ज्वेरेव का शॉट जैसे ही बाहर गिरा, थीम ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। इसके बाद ज्वेरेव उनकी तरफ आए और सामाजिक दुरी के इस दौर में उन्हें गले लगा लिया। थीम ने अपना सिर ज्वेरेव के कंधे पर रखा जो पहला ग्रैंडस्लैम जीतने से दो अंक से चूक गए। थीम ने से चूक गया। जर्मनी के लिए हार्न और सायरन का शोर सुनाई दे

गोंजालेस ने जब खिताब जीता था तब उन्होंने भी दो सेट गंवाने के बाद वापसी की थी। पांचवें सेट में नोवाक टाइब्रेकर इससे पहले जोकोविच और रोजर फेडरर के बीच 2019 विम्बलंडन फाइनल में खेला गया था जिसमें जोकोविच विजई रहे थे। जर्मनी के ज्वेरेव ने तेज चिल्लाने की आवाजें। बाहर से कहा , मैं कुछ गेम और कुछ अंक

आखिरी बार 90 के दशक में बोरिस बेकर ने पुरूष एकल खिताब जीता थीम इससे पहले तीन ग्रैंडस्लैम फाइनल में हार चुके थे जिसमें उनका मुकाबला फेडरर या रफेल नडाल से हुआ था। उन्हें फ्रेंच ओपन 2018 और 2019 फाइनल में नडाल ने और इस साल फरवरी आस्ट्रेलियाई ओपन में जोकोविच ने हराया था। मैच में ना तो दर्शकों का शोर था और ना ही हवाई जहाज, ट्रेनों , कार इंजिन ,

### यूएस ओपन की गलती से बड़ा सबक सीखा : जोकोविच

रोम। नोवाक जोकोविच ने सोमवार को यहां कहा कि अनजाने में लाइन जज के गले पर गेंद मारने के कारण यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर होने से उन्होंने बड़ा सबक सीखा। इटालियन ओपन खेलने के लिए यहां पहुंचे जोकोविच ने कहा, मैं शारीरिक तौर पर जितनी कड़ी मेहनत रहा हूं, उतनी ही मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कर रहा हूं। , मैं कोर्ट के अंदर और बाहर अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व पेश करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मेरे अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है और मैं हमेशा से इस तरह का इंसान और खिलाडी रहा हं। मैं इसे पूरी गंभीरता के साथ एक बड़े सबक के तौर पर लूंगा। मैं इस बारे में सोच रहा हूं। मैं समझ रहा हूं। मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूं। जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। आपको आगे बढना होगा।

रहा था। यदा कदा टूर्नामेंट स्टाफ की करतल ध्वनि सुनाई दे रही थी।

## इंग्लैंड ने दूसरा वनडे 24 रन से जीता आरट्रेलिया को हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली

**मैनचेस्टर।** अपने तेज गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में आस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली। इंग्लैंड का यस जीतकर पहले



बल्लेबाजी का फैसला एक समय गलत साबित होता नजर आने लगा जब विश्व चैम्पियन टीम नौ विकेट पर 231 रन ही बना सकी और आस्ट्रेलिया ने 20 ओवर बाकी रहने तक दो विकेट पर 143 रन बना लिए थे। आस्ट्रेलिया के लिए कप्तान आरोन फिंच (73) और मार्नस लाबुशेन (48) ने तीसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी की। एक सय आस्ट्रेलिया का स्कोर छह विकेट पर 147 रन था जो आठ विकेट पर 166 रन हो गया। पूरी टीम 48 . 4 ओवर में 207 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने 32, जोफ्रा आर्चर ने 34 और सैम क्रेन ने 35 रन देकर तीन तीन विकेट लिए। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सातवें ओवर तक उसके दोनों सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टॉ (शून्य) और जैसन रॉय (21) पवेलियन जा चुके थे। एडम जंपा (36 रन देकर तीन विकेट) ने अनुभवी जो रूट (39) कप्तान इयोन मोर्गन (42) और पिछले मैच में शतक जड़ने वाले सैम बिलिंग्स (आठ) को आउट करके इंग्लैंड का मध्यक्रम लडखडाया।

#### दूसरे वनडे में हार से ऑस्ट्रेलिया के मनोबल को झटका : वार्न

मैनचेस्टर। पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वार्न ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ कम स्कोर वाले दूसरे एकदिवसीय मैच में मिली 24 रन की हार से ऑस्ट्रेलिया के मनोबल को बड़ा झटका लगेगा। वार्न ने एकदिवसीय

श्रृंखला से पहले खेली गई टी20 🛮 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मुकाबले के प्रदर्शन को याद दिलाते हुए कहा, उस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया ने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला था ऐसे में आप उनसे नरमी बरत सकते थे।

PUBLIC NOTICE All concerned are hereby informed through this Public Notice that my client namely Sh. Ankit Sharma aged about 29 years, sor Sh. Sunil Sharma R/o J-6/121, Uppe Ground Floor, Yes Bank, Rajouri Garder Ground Floor, Yes Bank, Rajoun Garedon, Tagore Garden, West Delhi, New Delhi-110027, has severed all relation from his father Sunil Sharma S/o Sh. Raj Kumar Sharma R/O 23/54, Street No.2, Jawahar Nagar, Batala Road, Amritsar, Punjab-143001, from his relation. Anyone dealing with him pay, do so at his /hor your relea vith him may do so at his/her own risk costs and consequences in respect of the

Vijayendra Pratap (Advocate ENL. No. D-3465/2013 Cham No. 339, Dw arka Court Complex Sec-10, Dwarka, New Delhi-75 Mob. No. 9999372685

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of Mr. Arpit Jain who intend to purchase &

mortgage the Flat bearing No.111-B on First Floor, in Block-C2, at Lawrance

Road, Delhi with our client Axis Bank Ltd. against the financial assistance.

Whereas, Mr. Mohinder Kumar S/o Ude

Bhan has acquired the above said

property by way of Conveyance Deed dtd. 09.09.1997 and after death of

Mohinder Kumar his legal heirs have

relinquished their rights in the said property to Mrs. Sneh Arora vide

Relinguishment Deed dtd. 30.08.2013

without obtaining Surviving Members

Certificate. Now, Mrs. Sneh Arora intend

If any person(s) having objectio

regarding ownership of above-mentioned claimants or regarding mortgage of the

said property is/are requested to intimat

in writing to undersigned within 07 days from the date of issue of this notice

below address. In the event n

nformation is received within 07 days

from date hereof, our Client i.e. Axis Ban

to sell the same to Mr. Arpit Jain.

## PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that my client Smita Uban is in process to avail the credit facility from Axis Bank against Commercial Propert Bearing No. GF-12C and 12-D, on Ground Floor, in the multistoried Office Cum Commercial Complex Known as The Peach Tree, Sushant Lok-I, Block-C, Gurgaon Harvana, havina acauired vide Sale Deed dated 15.10.2018 (Doc No. 8197 and 8198)

General Public is hereby informed that Mr Mukesh Sultania and Ravi Sultania S/o Sh Shyam Sunder Sultania R/o 78, Taj Apt Sec -15, Rohini, Delh - 89 has applied fo transfer of ownership of Flatno. V2-0502, & Customer ID No-KFL-16107, Apartmen TDI City, Kundli, Sonepat Haryana in his her name claiming her himself the legal hei of deceased Late Mrs. Asha Devi Sultania (M/s Sh Shyam Sunder Sultania R/o 78, Ta

of deceased Late Mrs. Asha Devi Sultania (No Sh. Shyam Sunder Sultania R/o 78, 78 Apt. Sec-15, Rohini, Delhi - 89 as pet document, dated 28.2.2006 in records of company i.e. TDI Infrastructure Ltd. having its office Vandana building, 11, Tolstoy Marg, New Delhi-110001. Any person aving any objection for transfer of the saic latin favor of Mr. Mukesh Sultania and Ray Sultania (So. Sh. Shuam Sunder Sultania

any with supporting documents

hrough emai sustomer.care@tdiinfracorp.cor

ithin 15 days of the publication of the otice otherwise it shall be assumed the

ere are no objections to the proposed ansfer of the said flat in his/her name. Afte at company shall not be liable for any aimwhatsoever after 15 days. Sd/-

(Advocate) Enrl. No.D-582/94 C-1/121, Sec.-11, Rohini, Delhi-110085

All person/s having any claim against or in respect of the said Property, or any part thereof, by way of sale, exchange, mortgag (equitable/registered or otherwise), gift rust, inheritance, family arrangement maintenance, bequest, partnership ossession, lease, sublease, tenancy, license ien, charge, pledge, easement or otherwise howsoever, are hereby requested to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below within 7 days from the date hereof, failing which the claim or claims, any, of such person or persons will be considered to have been waived and/or

Kamal Kant Gupta (Advocate Shop No. 5 & 6, CSC, Pkt-E, Mayur Vihar-II, Delhi-110091 Office: 011-43052822 Mobile: 9810063351 E: kamalkantgupta74@gmail.com

#### बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए दर्शकों को अनुमति दे सकती है विक्टोरिया सरकार

भाषा। मेलबर्न विक्टोरिया राज्य के प्रधानमंत्री डेनियल एंड्रयूज ने कहा कि उनकी सरकार शहर में होने वाली दो शीर्ष खेल प्रतियोगिताओं में दर्शकों को स्टेडियम

में आने की स्वीकृति देने के लिए क्रिकेट आस्ट्रेलिया और टेनिस आस्ट्रेलिया के साथ बात कर रही है। इन शीर्ष खेल प्रतियोगिताओं मे भारत के खिलाफ बाविसंग डे टेस्ट और आस्ट्रेलिया ओपन शामिल है। इस तरह वी अटकले लगाई जा रही है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) वार्षिक बॉक्सिंग डे टेस्ट की मेजबानी से वंचित हो सकता है क्योंकि विक्टोरिया राज्य कोरोना वायरस महामारी से अधिक प्रभावित है।

#### गांगुली ने शारजाह स्टेडियम की सराहना की

शारजाह (यूएई)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मेजबानी करने वाले तीन स्थलो में से एक शारजाह स्टेडियम का दौरा किया और इस नवीनीकत स्टेडियम की सराहना की।भारत मे केविड-१९ के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईपीएल २०२० को यूएई में आयोजित किया जा रहा है और इस टी20 लीग की मेजबानी दुबई, अबु धाबी और शारजाह करेंगे। सोमवार को यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गांगुली ने कहा कि यवा खिलाडी उस किकेट मैदान में खेलने को लेकर उत्सुक है जहां सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड्यों ने इतिहास रचा। हाल मे शारजाह स्टेडियम में बड़े पैमाने पर नवीनीकरण का कार्य किया गया है जिसमें नई कृत्रिम छत लगाना, रॉयल सुइट को अपग्रेड करना के अलावा क्मेटरी बॉक्स और वीआईपएल हॉस्पिटेलिटी बॉक्स को कोविड-१९ से जुड़े नियमों के अनुसार

## मुंबई इंडियन्स पर भारी पड़ सकती है स्पिन गेंदबाजी तटस्थ स्थलों पर खेलना टीमों के लिए



भाषा। मुंबई

बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाजों की मौजूदगी मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियन्स को दमदार टीम बनाती है लेकिन अनुभवी तेज गेंदबाज लसित मलिंगा और अच्छे स्पिनरों की कमी इस टीम के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खिताब बचाने की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है। टीम अबुधाबी की धीमी पिचों पर अपने ज्यादतर (आठ) मैच खेलेगी और इन परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना उसकी सफलता के लिए जरूरी होगा। कप्तान रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक की ठोस सलामी जोडी बल्लेबाजी में मुंबई इंडियन्स की ताकत होगी, इसके अलावा ऑस्टेलियाई क्रिस लिन भी जरूरत पडने पर बेहतर विकल्प होगें। पिछली बार की विजेता टीम 19 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मुकाबले लिए मैदान पर उतरेगी। सूर्यक्मार यादव, कीरोन पोलार्ड, चोट से वापसी कर रहे हार्दिक

# अधिक चुनौतीपूर्ण होगा : हर्षल पटेल

पटेल ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र में तटस्थ स्थलों पर खेलने से टीमों को घरेलू हालात मे खेलने क फायदा उठाने का मौका नही मिलेगा और विभन्न स्थलो वी विभन्न पिचो से लगातार सामंजस्य बैटाना टीमो के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। करोना वायरस संक्रमण के बढ़त मामलो के करण दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग क आयोजन इस बार यूएई में तीन स्थलो दुबई, अधु धाबी और शारजाह में होगा। मुझे लगता है कि प्रत्एक स्थिति के अपने फायदे और नुकसान होते है। तटस्थ स्थलो पर खेलने से

निश्चित तौर पर घरेलू मैदान पर खेलने व्य प्वयदा नहीं मिलेगा इसलिए यह टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि आप एक तरह के विकेट पर निर्भर नहीं रह सकते। इस आलराउंडर ने कहा कि टीमों के पास पिचों वो अपने मजबूत पक्षों के अनुसार तैयार करने वा मौवा नहीं होगा।

पंड्या और कृणाल पंड्या जैसे बल्लेबाज टीम के मध्यक्रम को मजबूती प्रदान करेंगे। दूसरे टीमों की तुलना में यहां मुंबई का पलड़ा थोड़ा भरी होगा क्योंकि ए सभी बड़े शॉट खेलने में माहिर है। उनकी मुख्य समस्या सही गेंदबाजी संयोजन बनाने में होगी, खासकर स्पिन विभाग में। तेज गेंदबाजी की बात करें तो मलिंगा व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए टूर्नामेंट से हट गए है। उनकी गैरमौजुदगी में जसप्रीत बुमराह पर दबाव अधिक होगा। पिछले सत्र में टीम के लिए

बमराह चोट के कारण लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे है। विदेशी तेज गेंदबाजों में मिशेल मैक्लेनाघन और ट्रेंट बोल्ट बाएं हाथ से गेंदबाजी का विकल्प देते है जबकि नाथन कुल्टर नील गेंदबाजी हरफनमौला होंगे। ऑस्ट्रेलिया के जेम्स पैटिंसन के टीम में आने से विकल्प बढा है। टीम में चयन को लेकर इन सबके बीच कड़ा मुकाबला होगा। खिताब के सबसे मजबूत दावेदारों में एक इस टीम को हालांकि अच्छे स्पिनरों की कमी महसूस हो सकती है। उनके पास कुणाल हैं, जो

### आईपीएल में आखिरी ओवरों की गेंदबाजी में महारथ हासिल करना चाहते हैं जंपा

ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर जम्पा को चुनौती स्वीकार करना



आगामी सत्र में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर (आरसीबी) का प्रतिनिधित्व करते हुए आखिरी ओवरो की गेंदबाजी में महारथ हासिल करना चाहते है। टीम में उनके साथ युजवेन्द्र चहल भी है और ए दोनों क्लाई के स्पिनर है। जम्पा लीग के दौरान आखिरी ओवरो की गेदबाजी को लेकर भारतीय स्पिनर के दिमाग को पढ़ना चाहते है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में जम्पा आखिरी ओवरो मे दमदार गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। इससे पहले राइजिंग पुणे सुपर जाएंट्स (पूर्व फ्रेंचाडजी) के लिए आईपीएल के दो सत्र मे खेल चुके जम्पा ने कहा, मुझे वास्तव मे आखिरी ओवरो में गेंदबाजी करना पसंद है। मुझे खासतौर पर वैसी चुनौतियां पसंद है जहां से मैच का रख किसी भी तरफ मुड़

टीम को पिछले सत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राहल चाहर से उम्मीदें होगी। ऑफ स्पिनर जयंत यादव के लिए पिछला घरेल सत्र अच्छा नहीं रहा ऐसे में यह देखना होगा कि उन्हें इस सत्र में कितने सबसे ज्यादा 19 विकेट लेने वाले कामचलाऊ विकल्प की तरह है। मैचों में मौका मिलता है।

#### Ltd. will proceed with the mortgage DEEPJYOT SINGH, ADVOCATE GF, South Extn-II, New Delhi-49 # 011-26262610, 11, 12

## पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

डीएल1947पीएलसी001240 ; ई—मेल : pnbfinanceindustries@gma पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9—10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली—1100 फोन नंबर : +91-7303495375, वेबसाइट : www.pnbfinanceandindustries.com

कम्पनी के सदस्यों के ध्यानाथ

यह शुद्धिपत्र, पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कम्पनी) के सभी सदस्यों का ध्यान, कम्पनी द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2020 को ई—मेल द्वारा प्रेषित, वित्तीय वर्ष 2019—20 हेतु कम्पनी की 125वीं वार्षिक रिपोर्ट की ओर आकर्षित करने के लिए हैं, जो कम्पनी के उन सदस्यों को प्रेषित की गई थी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट(पार्टिसिपैंट्स) के पत्राचार हेतु पंजीबद्ध है तथा कम्पनी की वेबसाइट:

pnbfinanceandindustries.com पर उपलब्ध है। सभी सदस्य वार्षिक रिपोर्ट में नीचे दी गई मुदण शुद्धियां नोट करें पृष्ठ सं. 31 पर, बिन्दु 2(b) (i) में "सुश्री सौम्या अग्रवाल" के स्थान पर त्रुटिवश "सुश्री श्वेता सक्सेना' का नाम मुदित हुआ है। पृथ्व सं. 32 पर, बिन्दु 2(C) (i) में 'सुन्नी श्वेता सक्सेना एक समिति सदस्य के रूप में' संदर्म त्रुटिवश मुदित हुआ है।

उपरोक्त मुद्रण त्रुटियां सुधार ली गई हैं तथा सुधारीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाइट www.pnbfinanceandindustries.com पर तथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

जिंदल लीजिफन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 110, बाबर रोड, नई दिल्ली-11000

सीआईएन : एल७४८९९डीएल१९९४पीएलसी०

सभी शेयरघारकों से उपरोक्त सुघार नोट करने का अनुरोध किया जाता है। वास्ते पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटे

स्थान : नई रिल्ली

तेथि : 14-09-2020

श्वेता सक्सेन

## करने वाले दूसरी भारतीय कंपनी बनी नई दिल्ली। टाटा समृह की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सविर्सिज (टीसीएस) नौ

लाख करोड़ रुपए का बाजार पुंजीकरण आंकड़ा पार करने वाले दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरऑईएल) यह आंकड़ा पार कर चुकी है। बंबई शेयर बाजार (बीएसई) में टीसीएस का शेयर सोमवार को पांच प्रतिशत बढ़कर 2,492.30 रुपए पर बंद हुआ।

टीसीएस नौ लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार

### अमेजन 1,00,000 नई नियुक्तियां करेगी

न्यूयार्क । ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन और समय पर आर्डर को पूरा करने के लिए।,00,000 लोगों को नियुक्त करेगी। कंपनी ने सोमवार को कहा कि ए नौकरियां अंशकालिक और पूर्णकालिक होंगी। इससे पैकिंग, कम समय में आर्डर को पूरा करने में मदद मिलेगी। अमेजन ने स्पष्ट किया कि ये रोजगार अवकाश के दौरान की जानी वाली नियुक्तियों से संबद्ध नहीं है।

#### मौद्रिक नीति की अपनी सीमा है, प्रोत्साहन के राजकोषीय उपाय करने होंगे : एसबीआई इकनॉमिस्ट

मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कहा है कि देश को एक सिक्रय राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए और अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार के लिए सिर्फ मौद्रिक उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने एक फॉर्मुले का इस्तेमाल कर ब्याज दरों के एक निचले परिबंध (लोअर बाउंड) का आकलन किया है। ब्याज दरों के इस परिबंध या सीमा से नीचे रहने से दरों में कटौती का लाभ होने के विपरीत हानि होने लगती है।

## सोना 24 रुपए लुढ़का, चांदी 222 रुपए चढ़ी

नई दिल्ली। अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने से स्थानीय र्साफा बाजार में सोमवार को सोना 24 रुपए घट कर 52,465 रुपए प्रति दस ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्युरिटीज ने यह जानकारी दी है। इससे पिछले कारोबारी दिन में सोना 52,489 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था।

### केलॉग ने यूपी में किसानों की आजीविका में सुधार के लिए बढ़ाया कदम

मुंबई। उत्तर प्रदेश केलॉग कंपनी और टेक्नोसर्व ने भारत के कुल कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में लघुधारक गेहूं किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण व आजीविका सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम किसानों को फ्सल की उत्पादकता में सुधार करने, बाजारों तक बेहतर पहुंच बनाने में मदद करेगा और किसानों की आजीविका के लिए आधारभृत बनेगा। इस परियोजना को कम से कम 10,000 किसानों की सदस्यता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। जिसमें 2,500 किसान सीधे किसान फील्ड स्कूल्स और किसान हित समूहों के जरिए से शामिल होंगे।

### ऑरेकल करेगी अमेरिका में टिकटॉक का अधिग्रहण

वाशिंगटन। अमेरिका में लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के अधिग्रहण की दौड़ में ऑरैकल ने माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ दिया है।

# थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 0.16 प्रतिशत पर

## • विनिर्मित उत्पाद महंगे होने से प्रभाव, पांच माह का उच्चस्तर

भाषा। नई दिल्ली

भाषा। मुंबई

विनिर्मित उत्पाद महंगे होने से अगस्त में थोक मृल्य सुचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढकर 0.16 प्रतिशत पर पहुंच गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई। इससे पहले पिछले कई महीनों तक थोक मुद्रास्फीति नकारात्मक दायरे यानी शुन्य से नीचे रही थी। अप्रैल में यह -1.57 प्रतिशत, मई में -3.37 प्रतिशत, जून में -1.81 प्रतिशत और जुलाई में -0.58 प्रतिशत रही थी। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी की गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई यह 1.17 प्रतिशत थी। अगस्त में

अगस्त २०२० के लिए 🔘 / 10 अधार वर्षः २०११-१२=१०० 2019-20 2020-21 योक मृत्य सूचकांक ः=ः मुद्रास्फीति की दर 121.7 0.16%जुल -0.58% जुल 120.6 सभी वस्तुए 1.17 121.7 6.51 146.3 वस्तुएं रमध वस्तुएं नैर-खाद्य -1.46 127.5 ईधन और ऊर्जा -3.53 0.00 119.3

थीं। मार्च में थोक मुद्रास्फीति 0.42 प्रतिशत पर थी। बयान में कहा गया है कि अगस्त में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 0.16 प्रतिशत वजह से लागू लॉकडाउन से आर्थिक (अस्थाई) रही है। अगस्त, 2019 में

घटकर ६.६९ प्रतिशत रही। सोमवार वो जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार हालांकि खाद्य मुद्रास्पीति अभी भी उंची बनी हुई है। सरकार ने जुलाई महीने की खुदरा मुद्रास्पीति का आंकड़ा संशोधित कर 6.73 प्रतिशत कर दिया है जबकि पहले इसके 6.93 प्रतिशत रहने की बात कही गई थी। माह के दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई ९.६२ प्रतिशत रही। उपमोक्ता मूल्य सूचव्रक (सीपीआई) आंकड़े के अनुसार अगस्त महीने मे खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्पवित मामूली घटकर ९.०५ प्रतिशत रही। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्प्रीति पर गौर करता है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा मुद्रास्प्रीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ ४ प्रतिशत पर रखने का जिम्मा सौपा है। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 3.84

घटकर ६.६९ प्रतिशत रही

प्रतिशत रही। इस दौरान सब्जियों की मुद्रास्फीति 7.03 प्रतिशत और दलहन की 9.86 प्रतिशत रही। अंडों, मांस और मछली की मुद्रास्फीति 6.23 प्रतिशत पर थी। इस दौरान आलू के दाम 82.93 प्रतिशत बढ़े। हालांकि, प्याज ३४.४८ प्रतिशत सस्ता हुआ। बिजली की मुद्रास्फीति घटकर 9.68

प्रतिशत रह गई। इससे पिछले महीने यानी जुलाई में यह 9.84 प्रतिशत थी। हालांकि, इस दौरान विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति बढकर 1.27 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 0.51 प्रतिशत थी। अगस्त में थोक मुद्रास्फीति में मामुली बढ़त रही है, लेकिन इससे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा आगामी समीक्षाधीन महीने में ईंधन और मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों को यथावत रखने की गुंजाइश बढ़ी है।

# कर्ज में ५.४९ प्रतिशत की वृद्धिः आरबीआई आंकड़ा

बैंक कर्ज 28 अगस्त को समाप्त पखवाडे में सालाना आधार पर 5.49 प्रतिशत बढकर 102.11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया जबिक बैंक जमा 10.92 प्रतिशत बढ़कर 141.76 लाख करोड़ रुपए रही। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 30 अगस्त, 2019 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का कर्ज 96.80 लाख करोड़ रुपए और जमा 127.80 लाख करोड़ रुपए था।

## डालर के मुकबले रूपया पांच पैसे मजबूती में रहा

मुंबई। वैश्विक बाजारों में अमेरिकी मुद्रा के कमजोर पड़ने और कच्चे तेल के भाव नरम पड़ने से सोमवार को उतार चढ़ाव भरे कारोबार में डालर के मुकाबले रुपया पांच पैसे बढ़कर 73.48 रुपए प्रति डालर पर बंद हुआ। कारोबार की शुरुआत में रुपया 73.40 रुपए प्रति डालर पर ऊंचा खुला। कारोबार के दौरान घरेलू मुद्रा उंन्ने में 73.26 रुपए और नीचे में 73.70 रुपए प्रति डालर के बीच घूमती रही। कारोबार की समाप्ति पर यह पांच पैसे ऊंचा रहकर 73.48 रुपए प्रति डालर पर बंद हुआ।

## बिकवाली दबाव से बाजार ९८ अंक लुढ़का, लेकिन आईटी शेयरों में रही चमक

खुदरा मुद्रास्पीति अगस्त महीने में मामूली

**नर्ड दिल्ली**। खाने केसामान वी महंगार्ड दर च्छा क्म होने से खदरा मदास्प्रीति अगस्त महीने में मामली



भाषा। मुंबई

घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को भारी उतार चढाव के बीच बिकवाली दबाव बढने से शुरुआती तेजी जाती रही और अंत में सेंसेक्स 98 अंक गिरकर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों से साथ हुई।

अपने सौदे हल्के किए। एचसीएल टेक की ओर से कारोबार को लेकर बेहतर अनुमान व्यक्त किए जाने से सुचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के शेयरों में चमक रही लेकिन एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटैड और आईसीआईसीआई बैंक की गिरावट सेंसेक्स पर भारी रही। कारोबार की शुरुआत मजबूती के

## मजबती के संकेतों के बावजुद निवेशकों ने बैंक और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में बिकवाली कर

#### 30-06-2020 को समाप्त तिमाही हेतु पृथक्कृत अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 परिचालन से कुल आय -0.08 21.64 -0.08 114.43 11.25 89.34 अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवा तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व रु) विध हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से 11.25 21.64 89.34 114.43 अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद र -6.67 6.64 70.76 130.34 विधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पश्चा -34 14 -4 03 38 59 5.57 विषय हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अविध हेतु लाम (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आ र पश्चात) सम्मिलित हैं] इक्विटी शेयर पूंजी 374.13 418.01 418.01 संबेय (पुनर्मूल्यन संबेय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है। प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रू. 10/-प्रत्येक

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 तहत स्टॉक एक्सवेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षि विवरण है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सवेन्ज वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.jlltd.co.in पर उपलब्ध है। लेखापरीक्षा समिति द्वारा सम्यक् पुनरीक्षित उपरोक्त परिणाम निदेशक मंडल द्वारा 14-09-202 आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।

(सुरेन्द्र कुमार जिंदर प्रबंध निदेश



# **Banking Regulation Bill** tabled in Lok Sabha

Law aims to bring cooperative banks under RBI's regulatory framework

shreya.n@livemint.com **NEW DELHI** 

inance minister Nirmala Sitharaman on Monday introduced the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020 in the Lok Sabha, aimed at bringing cooperative banks under the ambit of Reserve Bank of India (RBI) and empowering the central bank to undertake the scheme of bank amalgamation without a moratorium.

Once the bill is approved by the Parliament, the RBI's banking regulations will extend to cooperative banks as well, enhancing its oversight of a sector that has been witness to several scandals in the past. Cooperative banks are currently under the dual control of cooperative societies as well as RBI.

The changes will not affect existing powers of state registrars of co-operative societies. Nor will they apply to primary farm credit societies or cooperative societies, the main business of which is long-term finance for agricultural development.

The amendment allows cooperative banks to raise money via public issues and private placements of equity or preference shares as well as unsecured debentures, with the central's bank's nod. Currently,

access to capital for cooperative banks is limited. The bill also proposed to empower RBI to create a scheme of amalgamation for a bank without placing it under moratorium, which limits withdrawals by depositors and disrupts the bank's lending operations.

"Further amendments were proposed to be made in Section 45 of the Act to enable RBI to make a scheme to protect the interests of the public, the banking system, depositors or to secure the banking company's proper management, without first making an order of moratorium so as to avoid disruptions in the financial system,"



Cooperative banks are currently under the dual control of cooperative societies as well as the Reserve Bank of India

not affect the existing

powers of state

operative societies

according to the statement of objects and reasons mentioned in the bill introduced in the Lok Sabha

The Union cabinet had in June approved an ordinance to bring 1,482 urban and 58 multi-state cooperative banks under the RBI's supervision to strengthen oversight

allow co-op banks to

private placements

raise money via

moratorium norms

**AMENDING NORMS THE** proposed bill will empower RBI to create bank merger AMENDMENTS will THEY will, however,

> of the lenders, boost depositors' confidence and prevent a Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank-like fraud.

The government's move follows the collapse of PMC Bank, which had allegedly created fictitious accounts to hide over ₹4,355 crore of loans extended to the nowbankrupt Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL). The fraud, which was discovered by RBI in September, 2019 trapped millions of depositors.

In March, finance minister Sitharaman tabled amendments to the Banking Regulation Act, 1949 in the Lok Sabha. However, due to the outbreak of covid-19, the Parlia-

ment could not approve the changes. Thereafter, on 26 June, an ordinance was promulgated.

"As the economic situation arising from the covid-19 pandemic had increased the stress in both co-operative banks and banking companies, there

was an immediate need for legislation in this regard. As the Parliament was not in session, the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2020 was promulgated by the President of India," the bill said. The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020 seeks to replace the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2020.

## FM seeks Parliament's approval for ₹2.36 tn covid-related expenditure

asit.m@livemint.com NEW DELHI

inance minister Nirmala Sitharaman on Monday sought Parliament's approval for additional spending of ₹2.36 trillion in FY21 to meet the mounting expenses due to the coronavirus pandemic.

The first batch of supplementary demands for grants for the current financial year will involve additional budgetary burden of ₹1.67 trillion while around ₹69,000 crore will be met through savings by various departments. Most of the additional expenditure is for revenue expenses with only ₹5,462 crore earmarked for capital expenditure including ₹3,184 crore for crude oil reserves by the Indian Strategic Petroleum Reserves

The government has already signalled fiscal slippage by sharply increasing its gross borrowing programme by ₹4.2 trillion in May to a total of ₹12 trillion for FY21. The additional spending sough from Parliament will mostly cover the programmes announced by the government under the Garib Kalvan Yojana



Finance minister Nirmala Sitharaman presented the supplementary demands for grants for FY21.

and Aatmanirbhar package.

While the ministry of consumer affairs, food and public distribution will get ₹16,000 crore for meeting expenses towards the price stabilization fund and food subsidy, ₹46,602 crore will be transferred to states under post-devolution revenue deficit grant as recommended by the 15th Finance Commission.

The ministry of health and family welfare, which is at the forefront of the fight against the coronavirus pandemic, will receive additional funding of ₹14,232 crore for various covid 19-related expenses. Under the

Garib Kalyan Yojana announced in March, the ministry of labour and employment will receive ₹4,860 crore, while the ministry of rural development will get ₹33,771 crore for direct benefit transfers to vulnerable sections of the society under the Aatmanirbhar package and ₹40,000 crore for rural job guarantee scheme.

The large additional net cash

outgo of ₹1.67 trillion in the first sup-

plementary demand for grants is partly comprised of new items announced under the fiscal support plan, stepped up health expenditure, as well as some items that were under-budgeted earlier, such as the revenue deficit grants in relation to the Fifteenth Finance Commission's recommendations, said Aditi Nayar,

principal economist at ICRA Ratings. 'The extent to which savings can be found vide the expenditure management measures that were put in place, will contribute to determining the eventual fiscal outcome for FY21 in light of the ongoing revenue shock of around ₹6 trillion. Our baseline expectation is now that the government of India's fiscal deficit will widen to at least ₹14 trillion, or 7.4% of GDP, in FY21," she added.

## 500 private cos urged to clear MSME dues

Shreya Nandi

add Amitabh

voice to Alexa

bit.ly/33qPIj5

shreya.n@livemint.com NEW DELHI

he Union ministry for micro, small and medium enterprises (MSMEs) on Monday said it has "strongly" taken up with top 500 private companies the issue of delayed payments and dues to small businesses.

The outbreak of covid-19 and a consequent nationwide lockdown has battered small businesses, with most of them struggling to survive. Against this backdrop, MSME secretary A.K. Sharma has written to the companies, asking them to | ernment said.

clear all dues as the payments are crucial for the survival of small businesses

"This will ultimately benefit the entire economy, including the corporate

world. The minthe corporates to examine are pending and to release the same at the earliest," the gov-Small busi-

Government departments and state-owned companies have already paid around ₹10,000 crore to MSMEs

Nirmala Sitharaman had said that companies and

nesses have been

grappling with

liquidity shortage

because of the

lockdown. In

May, Union

finance minister

istry has therefore requested | government departments will have to clear pending dues to whether any such payments | MSMEs in 45 days. Government departments and stateowned companies have already paid around ₹10,000 crore, the ministry said.

"You may be aware that pay ment of MSME receivables within 45 days is mandated under the MSME Development Act, 2006, which is administered by this ministry. Moreover, your gesture will be a timely contribution for the economy of the nation. It will help bring a smile on millions of faces whose only source of livelihood are these smaller units." Sharma wrote

## **Govt bans** export of onions

Asit Ranjan Mishra

asit.m@livemint.com **NEW DELHI** 

he government on Monday banned export of onions, anticipating a shortfall in the key cooking ingredient as exports shot up 30% in the April-July period.

Exports of all varieties of onions are prohibited with immediate effect, the Directorate General of Foreign Trade said in a notification. "The provisions under the Transitional Agreement shall not be applicable under this notification," it said.

India exported fresh onions worth \$328 million and dried onions worth \$112.3 million in FY20. Exports of onions shot up 158% to Bangladesh in the April-July period.

The ban comes at a time when the wholesale and retail price of onion in August fell 35% and 4%, respectively. In Delhi, retail price of onion stood at ₹40 per kg.

Restriction on onion exports has become an annual affair.

Last year on 29 September, the government had banned exports of onions and imposed countrywide stock limits to bring down prices of onions that had soared ahead of state elections in Maharashtra and Haryana. The crackdown followed retail onion prices touching ₹80 a kg in Delhi because of supply disruptions after floods in

some states. In December, the prices hit ₹160 per kg in certain parts of the country.

Five months after the ban, government lifted the curbs starting 15 March this year as the shortage in onion supply because of excess rain and flood hitting the kharif crop passed with the arrival of the rabi crop.

## **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**



Delhi Development Authority issued public notice vide Gazette notification S.O. 894 (E) dated 28.02.2020 and also published in the newspapers for inviting objections / suggestions from the public regarding proposed Modification in MPD-2021 with respect to Transit Oriented Development (TOD).

As per procedure all the objections/suggestions received within the stipulated time period of 45 days will be placed before the Board of Enquiry and Hearing (BoEH). The Board Hearing will be held on 17.09.2020 (Thursday) from 10:30 A.M. onwards through online mode on "WebEx Online Video Conferencing".

Any person who has filed objection/ suggestion and wants to present his/her oral submissions before the Board, may join the online meeting on WebEx through the link and meeting ID/Password shared with the individuals on their provided Email ID to present his/ her views, as per the proposed

The proposed schedule for Board of Enquiry & Hearing shall be available on the DDA website i.e. www.dda.org.in (under head HOTLINKS'/'PUBLIC NOTICES') on 15.09.2020. Concerned persons shall also be informed through E-mail/SMS as per details provided in their representations.

**Helpline Number for any assistance during** the online meeting: - 011-24698564 Contact Person: Sh. Suraj Singh, Asstt. Director (Systems), Contact Person: Sh. Vishwas Bansal, Asstt. Director (Systems)

Please give your feedback on DDA Apps at ▶ Google play Please Visit DDA's website: www.dda.org.in or Dial Toll free No. 1800110332

PNB FINANCE AND INDUSTRIES LIMITED

egd office: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-

Notice

For the Attention of Members of the Company This corrigendum is to draw attention of all the members of PNB Finance and Industries Limited (the Company) towards the 125<sup>th</sup> Annual Report of the Company for the Financial

Year 2019-20 sent by the Company through e-mail dated September 08, 2020 to members

of the Company whose email addresses are registered with the Company/ depository

participant(s) for communication purpose and as available on the website of the Compan

All the members should take note of the below given printing corrections in the Annual Report On page no. 31, in point 2(b) (i) name of "Ms. Shweta Saxena" printed erroneously in place

of "Ms. Saumya Agarwal". On page no. 32, in point 2(c)(i) reference of "Ms. Shweta Saxer

as a member of Committee" is erroneously printed.
The above said printing errors has been rectified and the rectified Annual Report 2019-20 is

available on the website of the Company www.pnbfinanceandindustries.com and the

website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com.

All the shareholders are requested to take note of the above correction

CIN: L65929DL1947PLC001240; Email: pnbfinanceindustries@gn

110002 Tel No.: +91-7303495375, Website: www.pnbfinanceandindustries.



## Sustainable **Endeavours towards**



#### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (REVIEWED) FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020 (₹ in crore) STANDALONE **Quarter Ended Quarter Ended** Year ended Year ended 30th June, 31st March, 30th June, 31st March, 30th June, 31st March, 30th June, 31st March. 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2020 JNAUDITED UNAUDITED **AUDITED** UNAUDITED **AUDITED** UNAUDITED **AUDITED** AUDITED 7,532.12 1,806.49 7,532.12 Total Income from Operations (Net) 1.773.91 1.888.49 1.806.49 1.773.91 1.888.49 515.28 Net Profit for the Period (before tax & exceptional items) 270.88 545.35 515.34 2,174.53 270.83 545.30 2,174.31 Net Profit for the Period before tax (after exceptional items) 2,174.53 270.88 545.35 515.34 270.83 545.30 515.28 2,174.31 203.43 440.96 335.68 1,708.42 203.38 440.91 335.62 1,708.20 Net Profit for the Period after tax (after exceptional items) Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the 1.691.78 1.691.56 period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] Paid up Equity Share Capital (FV - ₹10/- each) 2,001.90 2,001.90 2,001.90 2,001.90 2,001.90 2,001.90 2,001.90 Earning Per Share (FV - ₹10/- each) # 2.20 8.53 8.53 i) Basic (not annualised) 1.02 1.68 1.02 2.20 1.68

1.68 # The EPS for the quarter is not annualized

8.53

Director Finance

NOTES:

ii) Dilluted (not annualised)

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the websites of BSE Limited (URL: www.bseindia.com/corporates), National Stock Exchange of India Limited (URL: www.nseindia.com/corporates) and the same is also available on the company's website (URL: www.hudco.org).

2. The above unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at

their meeting held on 14th September, 2020. These unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2020 have also been reviewed by the Statutory Auditors of the Company in compliance with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2.20

1.02

8.53

1.68

Place: New Delhi

Date: 14th September, 2020

For and on behalf of the Board of Directors

<u> 1978)</u> D./Guhan



HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (HUDCO) (A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING) CIN: L74899DL1970GOI005276 | GST No: 07AAACH0632A1ZF | www.hudco.org REGISTERED OFFICE: HUDCO Bhawan, Core 7A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi -110003

2.20

1.02

Follow us on: of 👽



**VOIDS** 

New Okhla Industrial Development Authority

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि नौएडा प्राधिकरण ारा आपसी समसौते के आधार पर करा किया जाना प्रस्तानिन है :

1/1	रा जायता रामझारा के जावार पर प्रेय किया जाना प्रस्तावित है .—										
क्र. सं.	प्राम का नाम	खाता सं.		क्षेत्रफल (हे० में)	नाम काश्तकार व पता	क्रय करने का उद्देश्य					
		46	1	1.9565	श्री दयाराम पुत्र	सैक्टर—163,					
1.	मोहियापुर	47	92	1.9540	सुन्हैरी, निवासी	164 व 165 के					
		48	95	0.4930	ग्राम—मोहियापुर।	विकास हेतु।					

अन्दर नौएडा विकास प्राधिकरण के भूलेख विभाग के कार्यालय में प्रस्तृत कर (आर.एम. सक्सेना) तहसीलदार, नौएडा

उपरोक्त भृमि को क्रय किये जाने में यदि किसी जन साधारण को प्रश्नगत भृमि के

सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति देनी हो, तो सार्वजनिक प्रकाशन के 15 दिन के



### New Okhla Industrial Development Authority

Administrative Building, Sector-6, Noida-201301 (U.P.) Website: www.noidaauthoritvonline.com

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि को नौएडा प्राधिकरण द्वारा आपसी समझौते के आधार पर क्रय

किया	किया जाना प्रस्तावित है –											
क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	काश्तकार का नाम व पता	क्रय करने का उद्देश्य						
1.	याकूबपुर	21	147年/1	0.3610	श्री धर्मवीर, रमेशचन्द पुत्रगण भूपसिंह, श्रीमति राजेश पत्नी खेमचन्द निवासीगण ग्राम याकूवपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।	सैक्टर–85 के सुनियोजित विकास हेतु।						

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी जन साधारण को संबंधित भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति देनी हो, तो सार्वजनिक प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर तहसीलदार (भूलेख विभाग) अथवा विशेष कार्याधिकारी (यू०), नौएडा के कार्यालय में प्रस्तुत (डाॅ0 सन्तोष उपाध्याय)

विशेष कार्याधिकारी नौएडा

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

ete: September 14, 2020 : New Delhi

www.pnbfinanceandindustries.com.

Shweta Saxena Company Secretary

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA